

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2014—कार्तिक 2, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

अंतिम सूचना

क्र. जि.पं.-पंचा.प्रको.-14-9119.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 446, भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014 में मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल द्वारा जिला सागर की ग्राम 5 ग्राम पंचायत मकरोनिया बुजुर्ग, रजाखेड़ी, बड़तूमा, गंभीरिया एवं सेमराबाग को नगरपालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग बनाये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 एवं सहपठित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन (Amalgamation) तथा परिवर्धन नियम, 1994 के प्रावधान के अधीन राजस्व जिला सागर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसको इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शित ग्राम पंचायत में स्तंभ (6) में वर्णित गांव सम्मिलित हैं को नगर परिषद् घोषित हो जाने के कारण विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	सागर	1 मकरोनिया बुजुर्ग 2 गंभीरिया 3 रजाखेड़ी 4 बड़तूमा 5 सेमराबाग	1 मकरोनिया बुजुर्ग 2 गंभीरिया 3 रजाखेड़ी 4 बड़तूमा 5 सेमराबाग	1 मकरोनिया बुजुर्ग 2 गंभीरिया 3 रजाखेड़ी 4 बड़तूमा 5 सेमराबाग

अशोक सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र.-13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खरगोन	1 खरगोन	1. घेगांव, 2. साईंखेड़ा, 3. लोनारा, 4. बगवां, 5. दसंगा, 6. डोंगरगांव, 7. लिक्खी, 8. मोठापुरा, 9. रजुर, 10. इच्छापुर, 11. नंदगांवबगुद, 12. पिपरी, 13. अकावल्या, 14. घोट्या, 15. सुरपाला, 16. उन बुजुर्ग, 17. उन खुर्द, 18. डालका, 19. गावसन, 20. पंधान्या, 21. उबदी, 22. नंदगांव रोड, 23. रायबिडपुरा.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला पिछड़ा वर्ग अनारक्षित महिला	3 13 4 6 2 7 2 3
2	खरगोन	2 खरगोन	1. इदारतपुर, 2. अघावन, 3. सिनखेड़ा, 4. बरूड, 5. बैजापुरा, 6. डोंगरचिचली, 7. रोमचिचली, 8. बैडियांव, 9. टेमला, 10. मेनगांव, 11. निमगुल, 12. पिपराटा, 13. आसनगांव, 14. नारायणपुरा, 15. जामली, 16. बलवाडी, 17. सोनीपुरा, 18. रणगांव, 19. मांगरूल बुजुर्ग, 20. भसनेर.		
3	खरगोन	3 गोंगावों	1. बिलखेड, 2. सुरपाला, 3. बैजापुरा, 4. गोंगावों, 5. शाहपुरा, 6. दयालपुरा, 7. महम्मदपुर, 8. कुण्डिया, 9. खेडी खुर्द, 10. मांगरूल खुर्द, 11. बीड, 12. ठिबगांव बुजुर्ग, 13. मेहरजा, 14. मगरिया, 15. गोवाडी, 16. जामन्या, 17. देवलगांव, 18. घुघरियाखेडी, 19. बिलाली, 20. हीरापुर, 21. लाखी, 22. बेहरामपुरा, 23. टेमरना, 24. पिपलई, 25. सिगनुर, 26. गोपालपुरा.		
4	खरगोन	4 गोंगावों	1. रेटवा, 2. लिमवाडी, 3. दसनावल, 4. रूपखेड़ा, 5. सोलना, 6. नागझिरी, 7. बडगांव, 8. राजपुरा, 9. कुकडोल, 10. कुम्हारखेडा, 11. देवली, 12. कोठा खुर्द, 13. उमरखली, 14. कोठाबुजुर्ग, 15. पेनपुर, 16. जगन्नाथपुरा, 17. पिपरखेडा, 18. घट्टी, 19. बिस्टाल, 20. बलगांव.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	खरगोन	5 भगवानपुरा	1. आमल्यापानी, 2. जलालाबाद, 3. देवनल्या, 4. बडी, 5. मोहना, 6. मदनीखुर्द, 7. बहादरपुरा, 8. बागदरी, 9. अनकवाडी 10. भातुड, 11. सेजला, 12. बागदरा, 13. ढाबला, 14. गढी, 15. अंजनगांव, 16. दाउतखेडी 17. मोंगरगांव, 18. गुलझिरा, 19. रसगांगली, 20. माण्डवखेडा.		
6	खरगोन	6 भगवानपुरा	1. बन्हेर, 2. सरवरदेवला, 3. राजपुरा, 4. दामखेडा, 5. जामन्यापानी, 6. बाडीखुर्द, 7. भग्यापुर, 8. करही, 9. भगवानपुरा, 10. अम्बाखेडा, 11 थरडपुरा, 12. सुखपुरी, 13. धुलकोट, 14. काबरी, 15. गुजरबावडी, 16. भुलवान्या.		
7	खरगोन	7 भगवानपुरा	1. रायसागर, 2. खापरजामली, 3. गोपालपुरा, 4. देवाडा, 5. देजला, 6. पिपरीपाला, 7. हीरापुर, 8. देवझिरी, 9. बलखड खुर्द, 10. गलतार, 11. गारी, 12. मोहनपुरा, 13. झगडी, 14. बोरखेडा, 15. कदवाली, 16. पिपलझोपा, 17. धरमपुरी, 18. लाहोरपानी, 19. पलासकुट, 20. सिरवेल, 21. उमरिया, 22. नांदिया, 23. गोंटिया, 24. कुम्हारबेडी, 25. अम्बा.		
8	खरगोन	8 सेगांव	1. खोलगांव, 2. सेगांव, 3. रसगांव, 4. गाटलाखेडी, 5. दसनावल, 6. सतावड, 7. कमोदवाडा, गंधावड, 9. दोमवाडा, 10. बिरला, 11. तलकपुरा, 12. जलगोन, 13. जमोठी, 14. खामखेडा, 15. पनाली, 16. गोलवाडी, 17. जोजलवाडी, 18. शरदपुरा, 19. रेहगुन, 20. लेहकु, 21. जोगवाडा, 22. उपडी, 23. पनवाडा, 24. महुगांव, 25. केशवपुरा, 26. आछलवाडी, 27. केली, 28. श्रीखण्डी, 29. तिरी, 30. चिचगढ़, 31. बनिहार, 32. देवली, 33. सांगवी, 34. भडवाली, 35. सिनखेडी, 36. डालकी, 37. सिलोटिया.		
9	खरगोन	9 बडवाह	1. बडकीचौकी, 2. रमठान, 3. रूपाला, 4. बागोद, 5. टेमला, 6. सुरपाला, 7. बांडीखार, 8. बावी, 9. बलवाडा, 10. मुखत्यारा, 11. हनुमंत्या, 12. झिगडी, 13. बरझर, 14. ओखला, 15. लिम्बी बुजुर्ग, 16. खमकीबारूल, 17. कोदबारबुजुर्ग, 18. रमाणां, 19. उमरिया, 20. पडालीखुर्द, 21. सेल्दा बलवाडा, 22. बिलाली, 23. मोगरगांव, 24. धनपाडा, 25. जूजाखेडी, 26. माचलपुर खुर्द, 27. जेठवाय, 28. बामनपुरी, 29. पिडाय बुजुर्ग, 30. नाया.		
10	खरगोन	10 बडवाह	1. कुडिया, 2. थरवर, 3. आक्या, 4. काटकुट, 5. राजणां, 6. सोरठीबारूल, 7. बडेल, 8. मेहन्दीखेडा, 9. सुलगांव, 10. लोन्दी बी, 11. जगतपुरा, 12. बागफल, 13. कदवाल्या, 14. नांदिया, 15. सिरलाय, 16. रूपाबेडी, 17. नावघाटखेडी, 18. बावडीखेडा, 19. बफलगांव, 20. बेलमबुजुर्ग, 21. किठुद, 22. हमीरपुरा, 23. सेमरला, 24. मुराल्ला, 25. रतनपुर, 26. कटघड़ा, 27. बडवाह कस्बा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	खरगोन	11 बडवाह	1. आलीखुर्द, 2. टोकसर, 3. पीतनगर, 4. राहडकोट, 5. फनगांव, 6. मोगावा, 7. डुडगांव, 8. बेडिया, 9. चितावद, 10. तमोलिया, 11. गलगांव, 12. बडुद, 13. गवल, 14. सताजना, 15. टोकलाय, 16. साला, 17. हीरापुर, 18. बागदा बुजुर्ग, 19. बाल्या, 20. बिंजलवाडा, 21. रूपखेडा.		
12	खरगोन	12 बडवाह	1. भोगावा सिपानी, 2. भोगावा निपानी, 3. बडगांव, 4. रावेरखेडी, 5. बकावा, 6. मर्दाना, 7. कानापुर, 8. जिरभार, 9. लोन्दी (एस), 10. डालची, 11. कातोरा, 12. जुलवान्या, 13. सेल्दा, 14. नलवट, 15. दाभड, 16. डाल्याखेडी, 17. भुलगांव, 18. अतरसुम्बा, 19. अम्बा.		
13	खरगोन	13 बडवाह	1. ढकलगांव, 2. नलवा, 3. दसोडा, 4. छापरा, 5. मलगांव, 6. भोमवाडा, 7. कोटल्याखेडी, 8. बांगरदा, 9. ढसगांव, 10. भानबरड, 11. बोदगांव, 12. बमनगांव, 13. बासवा, 14. खुडगांव, 15. चित्रमोड, 16. खंगवाडा, 17. अंजरूद.		
14	खरगोन	14 महेश्वर	1. बाकानेर, 2. कुसुम्भ्या, 3. काकडदा, 4. मक्षी, 5. मेलखेडी, 6. सेल, 7. आशापुर, 8. कांकरिया, 9. करोली, 10. ईटावदी, 11. मातमुर, 12. जलकोटा, 13. खराडी, 14. मेहतवाडा, 15. मोहना, 16. बडवेल, 17. टेकवां, 18. गुजरमोहना, 19. बबलाई, 20. सिरस्या, 21. भकलाय, 22. सोमाखेडी, 23. बागदरा, 24. गुलावड, 25. कवडिया.		
15	खरगोन	15 महेश्वर	1. मोहद, 2. चोली, 3. मोगांवा, 4. झापडी, 5. चिन्दडिया, 6. समराज, 7. ठनगांव, 8. लाडवी, 9. जलुद, 10. छोटी खरगोन, 11. सुलगांव, 12. पथराड खुर्द, 13. धरगांव, 14. करोंदिया, 15. नान्द्रा, 16. देवपिपल्या, 17. मंदोरी, 18. भुदरी, 19. पेमपुरा, 20. बलसगांव.		
16	खरगोन	16 महेश्वर	1. घटयाबेडी, 2. करोंदिया खुर्द, होदडिया, 4. बिलबावडी, 5. कवाणा, 6. नागझिरी, 7. वणी, 8. कोंदलाखेडी, 9. बंडेरा, 10. कतरगांव, 11. बहेगांव, 12. पिटामली, 13. सिटोका, 14. सेजगांव, 15. पिपल्याखुर्द, 16. कोगावां, 17. पिपल्याबुजुर्ग, 18. माचलपुर, 19. पालसुद, 20. भामपुरा, 21. बरलाय, 22. बंजारी, 23. बडदियासुर्ता, 24. बठोली.		
17	खरगोन	17 कसरावद	1. अहिरधामनोद, 2. बडगांव, 3. बलगांव, 4. बलखड, 5. बालसमुद, 6. भोइंदा, 7. चिचली, 8. डोंगरगांव, 9. जरोली, 10. खडकवानी, 11. खलबुजुर्ग, 12. मगरखेडी, 13. मुकुन्दपुरा, 14. निमरानी, 15. पथोरा, 16. सत्राटी, 17. सायता.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	खरगोन	18 कसरावद	1. बैगंदी, 2. बलकवाडा, 3. बामंदा, 4. बामंदी, 5. बारदेवला, 6. भैसावद, 7. डाबरी, 8. डोलानी, 9. गवला, 10. जलखां, 11. काटकुर, 12. मलतार, 13. नायदड, 14. रामपुरा, 15. रसवां, 16. रेगवां, 17. रूपखेडा, 18. साईंखेडा, 19. सलीमपुरा, 20. साटकुर, 21. सिनगुन, 22. टेमरनी.		
19	खरगोन	19 कसरावद	1. अघावण, 2. अवरकच्छ, 3. बामखल, 4. बरसलाय, 5. बेसरकुण्ड, 6. भीलगांव, 7. बिठेर, 8. बोरावा, 9. चंदनपुरी, 10. छोटी कसरावद, 11. गोपालपुरा, 12. खेडी, 13. कोण्डापुरा, 14. लोहारी, 15. मगरखेडी, 16. मोगावां, 17. ओझरा, 18. सरवरदेवला, 19. सैलानी, 20. सिपटान, 21. सोनखेडी, 22. उटावद.		
20	खरगोन	20 कसरावद	1. अमलाथा, 2. बाडी, 3. भग्यापुर, 4. भटयाण बुजुर्ग, 5. भटयाण खुर्द, 6. भोपाडा, 7. डेडगांव, 8. दोगावां, 9. दुर्गापुर, 10. हीरापुर, 11. झिरन्या, 12. कमोदवाडा, 13. खेडी बुजुर्ग, 14. खामखेडा, 15. किरगांव, 16. लेपा, 17. मुलठान, 18. पिपलगोन, 19. रणगांव, 20. सांगवी (खामखेडा), 21. सामेडा, 22. सुर्वा.		
21	खरगोन	21 भीकनगांव	1. ककडगांव, 2. बिलखेडखुर्द, 3. बिटनेरा, 4. बडिया सहे., 5. चौण्डी अंदड, 6. मछलगांव, 7. अंदड, 8. पाडल्या गवली, 9. उमरिया, 10. अहिरखेडा, 11. रोडिया, 12. निमोनी, 13. भगवानपुरा, 14. देवला, 15. रेहगांव, 16. खुडगांव, 17. बलखडिया, 18. सगुर, 19. पोई, 20. सुर्वा, 21. भोपाडा, 22. शकरगांव.		
22	खरगोन	22 भीकनगांव	1. पाडल्या बाबा जी, 2. सांगवी, 3. अमनखेडी, 4. पत्थरवाडा, 5. पोखर खुर्द, 6. छिर्वा, 7. चौण्डी मुहाली, 8. अंजनगांव, 9. बोरूठ, 10. कान्झर, 11. पोखर बुजुर्ग, 12. सिराली, 13. एकतासा, 14. कालधा, 15. बोरगांव, 16. दौडवा, 17. खेरदा, 18. नुरियाखेडी, 19. रामपुरा, 20. नरगांव.		
23	खरगोन	23 भीकनगांव	1. बमनाला, 2. वल्का, 3. सेल्दा, 4. सुर्वा कोयडा, 5. सतवाडा, 6. पोखराबाद, 7. साईंखेडी, 8. कोदला जा., 9. केंदवा, 10. टेमला, 11. पिपल्या बुजुर्ग, 12. पलासी, 13. काल्याखेडी, 14. गोरडिया, 15. ईगरिया, 16. जामन्या बु., 17. बडिया गो., 18. पिपराड, 19. लालखेडा, 20. बिरूल, 21. चिरागपुरा, 22. बन्झर, 23. सुन्देल.		
24	खरगोन	24 झिरन्या	1. कोठडा, 2. लखापुर, 3. घोडी बुजुर्ग, 4. पखाल्या, 5. तिनस्या, 6. मोरदड, 7. काकरिया, 8. जामली, 9. मोरवा, 10. देवित बुजुर्ग, 11. खरवा, 12. अरदला, 13. पिपरी,		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			14. नानकोडी, 15. बायखेडा, 16. सायखेडा, 17. गोरखपुर, 18. ढसलगांव, 19. नरवट, 20. मुंडिया, 21. सपाटिया, 22. चिरिया, 23. दामखेडा, 24. झिरिन्या.			
25	खरगोन	25	झिरिन्या	1. चैनपुर, 2. डेहरिया, 3. पुतला, 4. रतनपुर, 5. मानीकेरा, 6. रातलीपुरा, 7. बडी, 8. बेढान्या बुजुर्ग, 9. खोई, 10. शिवना, 11. पुनासला, 12. ठोकनबेडा, 13. बेडछा, 14. पिपरखेड नाका, 15. नीमसेठी, 16. तेड, 17. भडलेन, 18. मिटावल, 19. गवला, 20. भावसिंगपुरा, 21. साका, 22. आभापुरी, 23. छेंडिया, 24. अम्बाडोचर, 25. टिगरिया, 26. सोनखेडी, 27. रेहटफल, 28. मारूगढ.		
26	खरगोन	26	झिरिन्या	1. राजपुरा, 2. मांडवी, 3. नहालदरी, 4. कोठाबुजुर्ग, 5. मलगांव, 6. पिडीजामली, 7. गुवाडा, 8. धुपा बुजुर्ग, 9. कोटाबेडा, 10. रूदा, 11. बुंदा, 12. गाडग्याआम, 13. हरणकुंडिया, 14. सेमलकुट, 15. काकोडा, 16. मेंडागढ, 17. बोरवाल, 18. पलोना, 19. कुडी, 20. पाडल्या, 21. तितरान्या, 22. बिलखेड, 23. चौपाली, 24. धुपी खुर्द.		

नीरज दुबे, कलेक्टर.

जनपद पंचायत गोगावा

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/ जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोगावां जिला खरगोन	1	बिलखेड खुर्द, शाहपुरा	अ. जा.	2
		2	गोगावां	अ. ज. जा.	10
		3	महम्मदपुर, जामन्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	बीड़ बुजुर्ग, मागरूल खुर्द, खेडी खुर्द	महिला अ.जा.	1
		5	घुघरियाखेंडी, देवलगांव	महिला अ. ज. जा.	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गोगावां	6	बेहरामपुर, टेमरना	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	जिला खरगोन	7	रेटवा, पिपलई, लिमवाडी, सिगनुर	महिला अनारक्षित	2
		8	दसनावल		
		9	नागझिरी		
		10	ठीबगांव, कुण्डिया, गोवाडी		
		11	मगरिया, मेहरजा, गोपालपुरा		
		12	कोठा खुर्द, कोठा बुजुर्ग, देवली		
		13	बिस्तान		
		14	कुकडोल, कुम्हारखेडा, पिपरखेडा		
		15	जगन्नाथपुरा, घट्टी, पेनपुर		
		16	दयालपुरा, सुरपाला, बैजापुर		
		17	लाखी, बिलाली, हीरापुर		
		18	सोलना, रूपखेड़ा, बलगांव		
		19	बड़गांव, राजपुरा		
		20	उमरखली		

नीरज दुबे, कलेक्टर.

जनपद पंचायत खरगोन

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खरगोन	1	धेगांव, साईंखेडा	अ. जा.	3
2	खरगोन	2	लोनारा	अ. ज. जा.	10
3	खरगोन	3	बगवां, दंसगा, डोंगरगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	खरगोन	4	लिक्खी, मोठापुरा	अनारक्षित	4
5	खरगोन	5	इदारतपुर, रजूर	महिला अ.जा.	2
6	खरगोन	6	इच्छापुर, नंदगांवबगूद, पिपरी	महिला अ. ज. जा.	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	खरगोन	7	अघावन, अकावल्या, उबदी	महिला पिछड़ा वर्ग	1
8	खरगोन	8	घोट्या, नंदगांव रोड, सुरपाला	महिला अनारक्षित	2
9	खरगोन	9	ऊनबुजुर्ग		
10	खरगोन	10	ऊनखुर्द, रायबिडपुरा		
11	खरगोन	11	डालका, गावसन, सिनखेडा		
12	खरगोन	12	बरूड		
13	खरगोन	13	बैजापुरा, डोंगरचिचली, रोमचिचली		
14	खरगोन	14	बैडियांव, टेमला		
15	खरगोन	15	मेनगांव, निमगुल, पिपराटा		
16	खरगोन	16	आसनगांव, नारायणपुरा, पंधान्या		
17	खरगोन	17	जामली, भसनेर		
18	खरगोन	18	बलवाडी, सोनीपुरा		
19	खरगोन	19	रणगांव, मांगरूल बुजुर्ग		

नीरज दुबे, कलेक्टर.

जिला/ जनपद पंचायत
परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	जनपद /जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झिरन्या	1	कोठडा, लखापुरी, घोडी बुजुर्ग	अ. जा.	1
2	झिरन्या	2	पखाल्या, तिनस्या, मोरदड, काकरिया	अ. ज. जा.	20
3	झिरन्या	3	देवित बुजुर्ग, मोरवा, खारवा	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	झिरन्या	4	जामली, अरदला, चैनपुर	अनारक्षित	4
5	झिरन्या	5	शिवना पुनासला, ठोकनबेडा	महिला अ.जा.	1
6	झिरन्या	6	बेडछा, पिपरखेडनाका, नीमसेठी, तेड, भडलेन	महिला अ. ज. जा.	10
7	झिरन्या	7	मिटावल, गवला, भावसिंगपुरा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	झिरन्या	8	साका, बेढान्या बुजुर्ग, खोई	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	झिरन्या	9	आभापुरी, छेंडिया, अम्बाडोचर, टिगरिया		
10	झिरन्या	10	सोनखेडी, रेहटफल, नानकोडी, मारूगढ		
11	झिरन्या	11	मानीकेरा, पुतला, रतनपुर, राजपुरा		
12	झिरन्या	12	बडी, रातलीपुरा		
13	झिरन्या	13	झिरन्या		
14	झिरन्या	14	मांडवी, डेहरिया		
15	झिरन्या	15	नहालदरी, नरवट, ढसलगांव, सायखेडा		
16	झिरन्या	16	बायखेडा, गोरखपुर, पिपरी		
17	झिरन्या	17	मुंडिया, सपाटिया		
18	झिरन्या	18	चिरिया, दामखेडा		
19	झिरन्या	19	कोठा बुजूर्ग, मलगांव, पिडीजामली, गुवाडा		
20	झिरन्या	20	धुपा बुजूर्ग, कोटबेडा		
21	झिरन्या	21	रूदा, बुंदा, गाडग्याआम, हरणकुंडिया		
22	झिरन्या	22	सेमलकुट, काकोडा, मेंडागढ		
23	झिरन्या	23	बोरवाल, पलोना, कुडी		
24	झिरन्या	24	पाडल्या, तितरान्या, बिलखेड		
25	झिरन्या	25	चौपाली, धुपी खुर्द		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

जिला/ जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड /जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायतों के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेगांव	1	सेगांव	अ. जा.	1
		2	खोलगाव, रसगांव, गाटलाखेडी	अ. ज. जा.	9
		3	गंधावड, दसनावल, सतावड, कमोदवाडा	अन्य पिछड़ा वर्ग	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सेगांव	4	पनवाड़ा, जमोठी, महूगांव	अनारक्षित	2
		5	पनाली, जलगोन, खामखेडा, जोजलवाडी	अ.जा. महिला	0
		6	तलकपुरा, बिरला, दोमवाडा	अ. ज. जा. महिला	5
		7	गोलवाडी, रेहगून, आछलवाडी	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	0
		8	चिचगढ, बनिहार, तिरी	अनारक्षित महिला	1
		9	केली, लेहकू, जोगवाडा, शरदपुरा		
		10	सांगवी, देवली, उपडी		
		11	डालकी, सिनखेडी, भडवाली		
		12	श्रीखंडी, केशवपुरा, सिलोटिया		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

जनपद पंचायत
परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड /जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कसरावद	1	पिपलगोन, भग्यापुर	अ. जा.	3
		2	अमलाया, लेपा, भटयाणबुजुर्ग	अ. ज. जा.	6
		3	दोगावां, सामेडा, रणगांव, बाड़ी	पिछड़ा वर्ग	6
		4	माकडखेडा, मोगावा, बडगांव, डोगरगांव	अनारक्षित	10
		5	बालसमुद	महिला अ.जा.	2
		6	भोईदा, चिचली, जरोली	महिला अ. ज. जा.	3
		7	मगरखेडी, मकुन्दपुरा, सत्राटी	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		8	अहिरधामनोद, रेगवां, खडकवानी	महिला अनारक्षित	5
		9	निमरानी, खलबुजुर्ग, बलखड		
		10	भीलगांव, बलगांव, सायता, काटकूर		
		11	साटकूर, सलीमपुरा, रूपखेडा, पथोरा		
		12	मुलठान, हीरापुर, किरगांव		
		13	कमोदवाडा, भोपाडा, खेडीबुजुर्ग, सुर्वा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कसरावद	14	खामखेडा, भटयाणखुर्द, झिरन्या, सांगवी		
		15	छोटीकसरावद, गोपालपुरा, गवला		
		16	बोरावां, सरवरदेवला, ओझरा		
		17	उटावद, डेडगांव, दुर्गापुर		
		18	सैलानी, अघावण, चंदनपुरी, सोनखेडी, बिठेर		
		19	बामखल, अवरकच्छ, सिपटान, बरसलाय		
		20	बलकवाडा, रामपुरा, बेसरकुण्ड		
		21	सिनगुन, रसवां, साईखेडा		
		22	मलतार, भैसावद, डाबरी, बेगन्दी		
		23	बामंदी, बामंदा, बारदेवला, जलखां		
		24	नायदड, डोलानी		
		25	लोहारी, खेडी, टेमरनी, कोण्डापुरा		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

जनपद पंचायत भीकनगांव

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड /जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भीकनगांव	1	ककडगांव, बिलखेड, बिटनेरा	अ. जा.	1
2		2	मछलगांव, बडिया सहे. चौण्डी अंदद	अ. ज. जा.	13
3		3	अंदद, अहिरखेडा	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	उमरिया, रोडिया, निमोनी	अनारक्षित	6
5		5	बलखडिया, सगूर, रेहगांव	महिला अ.जा.	1
6		6	भगवानपुरा, पाडल्या गवली, देवला	महिला अ. ज. जा.	7
7		7	पोई, सुर्वा, भोपाडा	महिला पिछड़ा वर्ग	2
8		8	पोखराबाद, सतवाडा, वल्का	महिला अनारक्षित	3
9		9	बमनाला		
10		10	सेल्दा, सुर्वा, कोयडा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	भीकनगांव	11	खुडगांव, शकरगांव, पाडल्या बाबाजी		
12		12	साईखेडी, कोदला, केदवां		
13		13	अंजनगांव, चौण्डी मुहाली		
14		14	कांझर, बोरूठ		
15		15	पोखर बुजुर्ग, पत्थरवाडा, अमनखेडी		
16		16	सांगवी, पोखर खुर्द, छिर्वा		
17		17	पलासी, काल्याखेडी		
18		18	लालखेडा, पिपराड, टेमला		
19		19	गोराडिया, ईगरिया, जामन्या बुजुर्ग		
20		20	एकतासा, नुरियाखेडी, रामपुरा		
21		21	दौडवा, खेरदा		
22		22	कालधा, बोरगांव, सिराली		
23		23	बंझर, चिरागपुरा, नरगांव		
24		24	बिरूल, सुन्द्रेल		
25		25	बडिया गोविन्द, पिपल्या बुजुर्ग		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

जनपद पंचायत भगवानपुरा
परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भगवानपुरा	1	आमल्यापानी, जलालाबाद	अ. जा.	1
	जिला-खरगोन	2	देवनल्या, बड़ी	अ. ज. जा.	21
		3	बागदरी, भग्यापुर, बाड़ी खुर्द	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		4	दामखेड़ा, जामन्यापानी	अनारक्षित	2
		5	अनकवाड़ी बन्हेर	महिला अ.जा.	-
		6	भातुड़, सेजला, बोरखेड़ा	महिला अ. ज. जा.	11
		7	सरवरदेवला, गारी, राजपुरा	महिला पिछड़ा वर्ग	-
		8	बागदरा, ढाबला, माण्डवखेड़ा	महिला अनारक्षित	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9	गढ़ी, अंजनगांव, दाउतखेड़ी		
		10	मोगरगांव, गुलझिरा, रसगांगली		
		11	हीरापुर, देवझिरी, बलखड़ खुर्द, पीपरीपाला		
		12	मोहनपुरा, झगड़ी, गलतार		
		13	गोपालपुरा, कदवाली		
		14	पीपलझोपा, धरमपुरी, लाहोरपानी		
		15	देवाड़ा, देजला, करही		
		16	रायसागर, खापरजामली		
		17	उमरिया, अम्बा		
		18	कुम्हारबेड़ी, नांदिया, पलासकुट		
		19	सिरवेल, गोनटिया		
		20	भगवानपुरा		
		21	धूलकोट		
		22	काबरी, भुलवान्या		
		23	सुखपुरी, गुजरबावड़ी, अम्बाखेड़ा, थरड़पुरा		
		24	मोहना, बहादरपुरा, मदनीखुर्द		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बडवाह	1	बड़कीचौकी	अ. जा.	4
2			रमठान	अ. ज. जा.	5
3			रूपाला	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4			बागोद	अनारक्षित	10
5			टेमला	महिला अ.जा.	2
6			सुरपाला	महिला अ. ज. जा.	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	बडवाह		बावी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8	बडवाह	2	बांडीखारं	महिला अनारक्षित	5
9			बलवाडा		
10			मुख्त्यारा		
11			हनुमंत्या		
12	बडवाह	3	झिगडी		
13			बरझर		
14			रमाणं		
15			उमरिया		
16			पडालीखुर्द		
17			सेल्दा बलवाडा		
18			बिलाली		
19	बडवाह	4	कुडिया		
20			थरवर		
21			आक्या		
22			ओखला		
23			काटकुट		
24	बडवाह	5	लिम्बी बुर्जुंग		
25			राजणं		
26			सोरठी बारूल		
27			खमकी बारूल		
28			बडेल		
29			मेहन्दीखेडा		
30	बडवाह	6	कोदबर बुर्जुंग		
31			सुलगांव		
32			लान्दी बी		
33			जगतपुरा		
34			बागफल		
35			कदवाल्या		
36	बडवाह	7	सिरलाय		
37			रूपाबेडी		
38			बडवाह कस्बा		
39	बडवाह	8	मोगरगांव		
40			धनपाडा		
41			जेठवाय		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	बडवाह		बामनपुरी		
43			पिडाय बुर्जुग		
44			नाया		
45	बडवाह	9	नांदिया		
46			नावघाटखेडी		
47			बावडीखेडा		
48			सेमरला		
49			मुराल्ला		
50			रतनपुर		
51			कटघडा		
52	बडवाह	10	जूजाखेडी		
53			माचलपुर खुर्द		
54			बफलगांव		
55			बेलम बुर्जुग		
56			किटुद		
57			हमीरपुरा		
58	बडवाह	11	आलीखुर्द		
59			टोकसर		
60			पीतनगर		
61			राहडकोट		
62			मोगावा		
63	बडवाह	12	फनगांव		
64			गलगांव		
65			गवल		
66			सताजना		
67			टोकलाय		
68	बडवाह	13	भोगावा सिपानी		
69			बडगांव		
70			रावेरखेडी		
71			डाल्याखेडी		
72	बडवाह	14	बकावा		
73			मर्दाना		
74			लौन्दी (एस)		
75	बडवाह	15	कानापुर		
76			जिरभार		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	बडवाह		डालची		
78			कातोरा		
79	बडवाह	16	नलवट		
80			अतरसुम्बा		
81			बागदा बुर्जुग		
82			अम्बा		
83	बडवाह	17	चितावद		
84			तमोलिया		
85			हीरापुर		
86			बाल्या		
87			बिंजलवाडा		
88	बडवाह	18	डूडगांव		
89			बेडिया		
90	बडवाह	19	साला		
91			ढकलगांव		
92			नलवा		
93	बडवाह	20	बडूद		
94			रूपखेडा		
95	बडवाह	21	भोमवाडा		
96			कोटल्याखेडी		
97			बांगरदा		
98	बडवाह	22	मलगांव		
99			खुडगांव		
100			चित्रमोड		
101			खंगवाडा		
102			अजरूद		
103	बडवाह	23	बोदगांव		
104			बमनगांव		
105			बासवा		
106	बडवाह	24	दसोडा		
107			छापरा		
108			ढसगांव		
109			भानबरड		
110	बडवाह	25	भोगावा निपानी		
111			जूलवान्या		
112			सेल्दा		
113			दाभढ		
114			भुलगांव		

जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/ जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	जनपद पंचायत का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम) (4)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	महेश्वर	1	बाकानेर, कुसुम्भ्या, काकडदा, मक्षी	अ. जा.	5
		2	सेल, आशापुर, मेलखेडी	अ. ज. जा.	12
		3	कांकरिया, करोली, ईटावदी	पिछड़ा वर्ग	1
		4	जलकोटा, खराडी, मातमुर	अनारक्षित	6
		5	महेतवाडा, मोहना	अ.जा. महिला	3
		6	बडवेल, टेंकवाँ, गुजरमोहना	अ. ज. जा. महिला	6
		7	चोली, बबलाई, सिरस्या	पिछड़ा वर्ग महिला	1
		8	सोमाखेडी, बागदरा, भकलाय	अनारक्षित महिला	3
		9	भुदरी, गुलावड, मंदौरी		
		10	होदडिया, करोदियाखुर्द, बिलवावडी		
		11	वणी, नागझिरी		
		12	कवाणा, घट्याबैडी, बलसगांव, पेमपुरा		
		13	कवडिया, देवपिपल्या, मोहद		
		14	ठनगांव, समराज, लाडवी, जलूद		
		15	छोटी खरगोन, सुलगांव		
		16	मोगावाँ, करोदिया, चिन्दडिया		
		17	धरगाँव, झापडी		
		18	नान्द्रा		
		19	पथराड, बहेगांव		
		20	कतरगांव, बण्डेरा, कोगावाँ		
		21	पिपल्या बुजुर्ग, कोदलाखेडी		
		22	पिपल्याखुर्द, सेजगाँव, पिटामली, सितोका		
		23	पालसुद, भामपुरा, बरलाय		
		24	बडदियासुर्ता, बठौली, माचलपुर, बंजारी		

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्र. 15975-व.लि. 1-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, संकेत थोडवे कलेक्टर, होशंगाबाद नगर परिषद् बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के वार्डों का विस्तार नीचे दर्शायी अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता हूँ:—

नगर परिषद् बनखेड़ी के वार्डों की सूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
वार्ड क्रमांक एक	महात्मागांधी वार्ड
वार्ड क्रमांक दो	महाराणा प्रताप वार्ड
वार्ड क्रमांक तीन	लोकमान्य तिलक वार्ड
वार्ड क्रमांक चार	अम्बेडकर वार्ड
वार्ड क्रमांक पांच	भगतसिंह वार्ड
वार्ड क्रमांक छः	संत रैदास वार्ड
वार्ड क्रमांक सात	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
वार्ड क्रमांक आठ	वीर सावरकर वार्ड
वार्ड क्रमांक नौ	विवेकानन्द वार्ड
वार्ड क्रमांक दस	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
वार्ड क्रमांक ग्यारह	डॉ. हेडगेवार वार्ड
वार्ड क्रमांक बारह	शिवाजी वार्ड
वार्ड क्रमांक तेरह	शहीद अब्दुल हमीद वार्ड
वार्ड क्रमांक चौदह	रानी दुर्गावती वार्ड
वार्ड क्रमांक पन्द्रह	शहीद राजा भभूतीसिंह वार्ड

वार्डों की चतुर्थ सीमा का विवरण

वार्ड नं. 1—महात्मागांधी वार्ड

उत्तर—ज्ञानी अहिरवार के मकान से बदरझिला होते हुये ओल नदी तक.

पूर्व—ओल नदी से (हनुमान गढ़ी छोड़ते हुए) सिलीपाट फैक्ट्री तक.

दक्षिण—सिलीपाट फैक्ट्री से नयाखेड़ा रेल्वे फाटक तक.

पश्चिम—रेल्वे फाटक से विद्युत् उपकेन्द्र के पीछे से ज्ञानी अहिरवार के घर तक.

वार्ड नं. 02—महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर—ओल नदी से गाडरवाडा रोड पर ठैनी मैडे (राजस्व सीमा) तक.

पूर्व.—गाडरवाडा रोड पर मैडे से रेल्वे चौकी के पास ललताप्रसाद पटैल के मकान तक.

दक्षिण—ललता पटैल के मकान से ओल नदी तक.

पश्चिम—ओल नदी किनारे से हनुमान गढ़ी, हनुमान मंदिर से परसराम महाराज से नन्हेलाल से गुडडा वंशकार के मकान से होते हुए ओल नदी तक.

वार्ड नं. 03—लोकमान्य तिलक वार्ड

उत्तर—ठैनी रहटवाडा के मैडे से (राजस्व सीमा) नगवाडा, रहटवाडा के मैडे तक.

पूर्व.—रहटवाडा, नगवाडा के मैडे से रहटवाडा, दहलवाडा कला के मैडे तक.

दक्षिण—दहलवाडा कला, रहटवाडा के मैडे से (राजस्व सीमा) मुरारी तिवारी के मकान तक.

पश्चिम—मुरारी तिवारी के मकान से भगवत पटैल के सामने से होते हुये पोस्टआफिस के पीछे से नगवाडा रोड तिराहे तक.

वार्ड नं. 04 -अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—बनखेड़ी, दहलवाडाकला की राजस्व सीमा से रहटवाडा, दहलवाडाकला की राजस्व सीमा तक.

पूर्व.—रहटवाडा, दहलवाडाकला की राजस्व सीमा से दहलवाडाकला, जूनावानीढाना की राजस्व सीमा तक.

दक्षिण—दहलवाडा कला, जूनावानीढाना की (राजस्व सीमा) से शासकीय शाला भवन तक.

पश्चिम—ग्राम दहलवाडाकला की शासकीय शाला भवन के सामने से होतीलाल वंशकार के मकान के सामने से दहलवाडाकला, बनखेड़ी के मैडे (राजस्व सीमा) तक.

वार्ड नं. 05-भगतसिंह वार्ड

उत्तर—ओल नदी पर रेल्वेपुल से गुलाब अहिरवार के मकान से होते हुये रहटवाडा ठैनी बनखेड़ी के मैढे (राजस्व सीमा) तक.

पूर्व—बनखेड़ी ठैनी, रहटवाडा के मैढे से किसन यादव के मकान से होते हुये पोस्टआफिस, भगवत पटैल के बाद रास्ता मुरारी तिवारी के मकान के सामने से बनखेड़ी की पश्चिमी सीमा लेते हुए, ग्राम दहलवाडा कला के होरीलाल वंशकार के मकान से शासकीय शाला भवन तक.

दक्षिण—ग्राम दहलवाडा कला के शासकीय शाला भवन से बालाराम कुशवाह के मकान को लेते हुये काली चौक मेनरोड से होते हुए ओल नदी तक.

पश्चिम—ओल नदी से मुल्लू बाथरे के मकान से ओल नदी के किनारे-किनारे रेल्वे पुल तक.

वार्ड नं. 06-संत रैदास वार्ड

उत्तर—मस्जिद चौराहा (झंडा चौक) से बी.आर.सी. आफिस होते हुये दूरभाष केन्द्र तक.

पूर्व—दूरभाष से ओल नदी के किनारे खेडापति माता मंदिर होते हुये टीकाराम साहू के मकान तक.

दक्षिण—टीकाराम साहू के मकान से गम्फार खां के मकान से होते हुए पुत्री शाला भवन की रोड पर दीपक सोनी के मकान तक.

पश्चिम—दीपक सोनी के मकान से मेनरोड से मस्जिद चौराहा (झंडा चौक) तक.

वार्ड नं. 07-डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर—टैगोर स्कूल से मंडी रोड होते हुये मंडी गेट नं. 1 तक.

पूर्व—मंडी गेट नं. 1 से ठैनी रोड पर मंजूर टेलर के मकान तक.

दक्षिण—मंजूर टेलर के मकान से मटन मार्केट होते हुये मस्जिद तक.

पश्चिम—मस्जिद से मेनरोड होते हुये टैगोर स्कूल तक.

वार्ड नं. 08-वीर सावरकर वार्ड

उत्तर—रेल्वे स्टेशन से पोलीटेक्निक कालेज (आई.टी.आई) होते हुए ओल नदी पर रेल्वे पुल तक.

पूर्व—ओल नदी पर रेल्वे पुल से मंडी गेट की बाउण्डरी से होते हुये तहसील कार्यालय, स्टेशन शाला होते हुये रोड पार कर रामप्रसाद की दुकान से मुरली साहू के मकान तक.

दक्षिण—मुरली साहू के मकान से प्रदीप साहू के मकान तक.

पश्चिम—प्रदीप साहू के मकान से सतीश पाण्डे के मकान से होते हुये बसुन्धरा स्कूल के सामने से रेल्वे स्टेशन तक.

वार्ड नं. 09-विवेकानंद वार्ड

उत्तर—बनखेड़ी के उत्तर पश्चिम में रेल्वे पुलिया से परषोत्तम पटैल के मकान होते हुये अरविन्द कुशवाहा के मकान से रेल्वे स्टेशन तक.

पूर्व—रेल्वे स्टेशन से मनमोहन पुलिया के मकान को लेते हुये सुरेश पाण्डे के मकान से होते हुये रहमानखान की दुकान तक.

दक्षिण—रहमान की दुकान से दालमिल, थाना सेन्टमैरी कानवेंट स्कूल होते हुये बनखेड़ी की पश्चिमी सीमा पर पुलिया तक.

पश्चिम—बनखेड़ी की पश्चिमी सीमा पुलिया से बनखेड़ी के उत्तरी पश्चिमी कोने पर रेल्वे पुलिया तक.

वार्ड नं. 10-दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर—बनखेड़ी बाचावानी रोड पर पुलिया से सी.बी.आई., एस.बी.आई., ईदगाह होते हुए चौराहा तक.

पूर्व—चौराहा से अखण्ड ज्योति होते हुये राममंदिर तक.

दक्षिण—राम मंदिर से प्रेमनारायण हरषेक के खेत से होते हुये भगवत मेहर के मकान तक.

पश्चिम—भगवत मेहर के मकान से बनखेड़ी की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर बाचावानी रोड की पुलिया तक.

वार्ड नं. 11-डॉ. हेडगेवार वार्ड

उत्तर—संपतबाई के मकान से राम मंदिर तक.

पूर्व.—राम मंदिर से प्रदीप जावधिया के मकान तक.

दक्षिण—प्रदीप जावधिया के मकान से बंटी जैन के मकान होते हुये दीना कुशवाहा के मकान तक.

पश्चिम—दीना कुशवाहा के मकान से संपतबाई के मकान तक.

वार्ड नं. 12-शिवाजी वार्ड

उत्तर—नारायण विश्वकर्मा के मकान से धुर्वे मास्टर के मकान से होते हुये दुर्गा मंदिर तक.

पूर्व.—दुर्गा मंदिर से काछी मुहल्ला होते हुये बिचुआ रोड पर आंगनवाड़ी तक.

दक्षिण—बिचुआ रोड पर आंगनवाड़ी से परधानी मुहल्ला होते हुये कलकुही चौराहा तक.

पश्चिम—कलकुही चौराहा से नारायण विश्वकर्मा के मकान तक.

वार्ड नं. 13-शहीद अब्दुल हमीद वार्ड

उत्तर—दामोदर सोनी के मकान से चन्द्रभान अहिरवार के मकान से होते हुये ओल नदी के पार काली चौक तक.

पूर्व.—काली चौक से दहलवाड़ा कच्ची रोड होते हुये गिन्दा कुशवाहा के मकान से बनखेड़ी दहलवाड़ा कलां राजस्व सीमा तक.

दक्षिण—बनखेड़ी दहलवाड़ा राजस्व सीमा से ओल नदी पर रामप्रसाद सोनी के खेत के मकान से होते हुये मल्ला की चक्की तक.

पश्चिम—मल्ला की चक्की से दुर्गा मंदिर होते हुये दामोदर सोनी के मकान तक.

वार्ड नं. 14-रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर—संत रावतपुरा स्कूल से कलकुही चौराहा तांतू कुशवाहा के खेत से रंगलाल टुल्लू के खेत तक.

पूर्व.—रंगलाल टुल्लू के खेत से बनखेड़ी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कलकुही में बाचावानी रोड पर शेख मोसीन के मकान तक.

दक्षिण—ग्राम कलकुही में शेख मोसीन के मकान से ग्राम कलकुही में मनोहर ठाकुर के मकान तक.

पश्चिम—ग्राम कलकुही में मनोहर ठाकुर के मकान से बनखेड़ी में गया के मकान से होते हुये रावतपुरा स्कूल तक.

वार्ड नं. 15-शहीद राजा भभूतीसिंह वार्ड

उत्तर—ग्राम कलकुही में कुन्जीलाल पटैल के मकान से शेख मुहीम के मकान तक.

पूर्व.—शेख मुहीम के मकान से ग्राम केमढाना होते हुए ग्राम अध्यारवावडी की राजस्व सीमा तक.

दक्षिण—अध्यारवावडी की राजस्व सीमा से आजंन नदी के किनारे तक.

पश्चिम—आजंन नदी के किनारे से ग्राम अध्यानवावडी एवं केमढाना होते हुये ग्राम कलकुही में कुन्जीलाल पटैल के मकान तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर.

Hoshangabad, the 17th October 2014

No. 15975-scl-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Acts 1961 (No. 37 of 1961) I, Sanket Bhondve, hereby determine the extend of wards of Municipal Council Bankhedhi as per schedule given below:—

SCHEDULE
Number and name of Wards

Ward No. (1)	Name of Wards (2)
Ward No. 01—	Mahatma Gandhi Ward
Ward No. 02—	Maharana Pratap Ward
Ward No. 03—	Lokmanya Tilak Ward
Ward No. 04—	Ambedkar Ward
Ward No. 05—	Bhagat Singh Ward
Ward No. 06—	Sant Raidas Ward
Ward No. 07—	Dr. Shyamaprasad Mukherjee Ward
Ward No. 08—	Veer Saverkar Ward
Ward No. 09—	Vivekanand Ward

- Ward No. 10—Deendayal Upadhyay Ward
 Ward No. 11—Dr. Hedgawar Ward
 Ward No. 12—Shivaji Ward
 Ward No. 13—Shaheed Abdul Hameed Ward
 Ward No. 14—Rani Durgawati Ward
 Ward No. 15—Shaheed Raja Bhabhuti Singh Ward

WARD NO. 1—MAHATMA GANDHI WARD

- North**—North side of oal river to starting from Gyani Ahirwar house to Banderjhila via oal river.
East—From Oal river to sillipot factory (except Hanuman Garhi).
South—From Sillipot factory to Nayakheda railway Gate.
West—From Nayakheda railway gate upto Gyani Ahirwar house.

WARD NO. 2—MAHARANA PRATAP WARD

- North**—From Oal river to Gaderwara Road upto revenue area of thaini.
East—From Gaderwara road to railway chouki of village thaini including Laltaprasad patel.
South—From Laltaprasad patel house to oal river.
West—From Oal river's with hunuman garhi upto Hanuman temple via Oal river including Parasram Maharaj to Nanhelal & Gudda Banskar via Oal river.

WARD NO. 3—LOKMANYA TILAK WARD

- North**—From revenue area of thani & Rahatwara to Nagwada Rahatwara revenue area.
East—From Nagwada rahatwara revenue area to Rahatwara Dahalwada kala revenue area.
South—From Rahatwara Dahalwada kala revenue area to house of Murari Tiwari.
West—From house of Murari Tiwari to infront of Bhagwat patel house including tringle of Nagwada behind Post office.

WARD NO. 4—AMBEDKAR WARD

- North**—From revenue area of Bankhedi & Dahalwada kala to Rahatwara Dahalwada kala revenue boundary.
East—From Rahatwara Dahalwada kala revenue boundary to Junawani dhana revenue area.

- South**—From Junawani Dhana revenue area to Govt. School Dahalwada kala.
West—From Govt. School Dahalwada kala to infront of Hotilal Banskar house including revenue boundary of Bankhedi Dahalwada kala.

WARD NO. 5—BHAGATSINGH WARD

- North**—From Railway bridge of Oal river to Rahatwara Bankhedi Thaini revenue boundary including Gulab Ahirwar house.
East—From Rajatwara Bankhedi Thaini revenue boundary via Kishan yadav house to post office road after Bhagwat Patel to infront of Murari Tiwari to Bankhedi west boundary including village Dahalwada kala to Horilal Banskar house upto Govt. School building.
South—From Govt. School Dahalwada Kala including Balaram kushwaha house to kali chowk main road upto Oal river.

- West**—From Oal river to infront of Mullu Bathere house to bank of Oal river to railway bridge.

WARD NO. 6—SANT RAIDAS WARD

- North**—From Jhanda Chowk with Masjid chowk to BRC office including telephone exchange.
East—From Telephone exchange to bank of Oal river Khedapati temple with Tikaram Sahu house.
South—From house of Tikaram Sahu to Gaffar Khan house including girls school road to Deepak Soni house.

- West**—From Deepak Soni house to Jhanda Chowk & Masjid Chowk.

WARD NO. 7—DR. SHYAMAPRASAD MUKHERJEE WARD

- North**—From Tegor School to Mandi road via Mandi gate number one.
East—From Mandi gate number one to Thaini road including Manjoor tailer house.
South—From house of Manjoor tailer to Meat Market via Masjid.

- West**—From Masjid to main road with Tegor School

WARD NO. 8—VEER SAVERKAR WARD

- North**—From Railway Station to polytecnic College (ITI) via Railway Bridge of Oal River.
East—From Railway Bridge of Oal River to boundary of Mandi Gate including Tehsil office to Station

Shala road to Ramprasad to house of Murli Sahu..

South—From house of Murli Sahu to Pradip Sahu.

West—From Pradip Sahu from house of Pradip Sahu to house of Satish Panday including in front of Vasundra School to Railway Station.

WARD NO. 9—VIVEKANAND WARD

North—From North West Bankhedi Railway Culvert to house of Parshottam Patel to house of Arvind Kushwaha upto Railway Station.

East—From Railway Station to Monmohan Paliya house including Suresh Panday house upto Rahman Khan Shop.

South—Rahman Khan Shop to North-West Bankhedi Railway culvert.

West—From North-West Bankhedi Railway Culvert to corner side of north west railway culvert.

WARD NO. 10—DEENDAYAL UPADHAYAY

WARD

North—From culvert of Bankhedi Vachawani Road to CBI, SBI, including Idgah Chowk.

East—From Idgah Chowk to Akhand Jyoti Via Rammandir.

South—From Rammandir to feild of Premnarayan Hershek via Bhagvat Mehar house.

West—From House of Bhagvat Mehar to South-West boundary of Bankhedi including culvert of Vachawani road.

WARD NO. 11—DR. HEDGEWAR WARD

North—From house of Sampat Bai to Rammandir.

East—From Rammandir to house of Pradip Jawandhiya.

South—From house of Pradip Jawandhiya to House of Banti Jain including Deena Kushwaha house.

West—From Deena Kushwaha house to Sampat Bai.

WARD NO. 12—SHIVJI WARD

North—From house of Dhurvey Master via Narayan Vishwakarma house to Durga Mandir.

East—From Durga Mandir to Kachhi Mohhala including Anganwadi of Bichhua road.

South—From Anganwadi of Bichhua road to Pardhani Mohalla via Kalkuhi Chowk.

West—From Kalkuhi chowk to house of Narayan Vishwakarma.

WARD NO. 13—SHAHID ABDUL HAMEED WARD

North—From house of Damodar Soni to Chandrabhan Ahirwar house to Bank of Oal river Kali Chowk.

East—From Kali Chowk to house of Ginda Kushwaha upto Kachcha road of Dhahalwada Kalan to revenue boundri of bankhedi Dhahalwada Kalan.

South—From revenue boundry to near Oal river of form of Ramprasad Soni house to Chakki of Malla.

West—From Malla's Chakki to Durga Mandir upto house of Damodar Soni including Durga Mandir.

WARD NO. 14—RANI DURGAWATI WARD

North—From Sant Rawat pura School to Kalkuhi Chowk including Tantu Kushwaha farm upto Ranglal Thullu farm.

East—From Ranglal Thullu farm of South boundary of bankhedi including village Kalkuhi to house of Shek Mousin near Vachawani road.

South—From village Kalkuhi to house of Shek Mousin near Vachawani road to Manohar Thakur house village Kalkuhi.

West—From Manohar Thakur house village Kalkuhi to house of Gaya bankhedi to Rawat pura School.

WARD NO. 15—SHAHID RAJA BHABHUTI SINGH WARD

North—From house of Kunjilal Patel village Kalkuhi to Shekh Muhim house.

East—From Shekh Muhim house to village Kemdhana via Andhyarbawadi revenue boundary.

South—From Andhyarbawadi revenue boundary to bank of Anjan river.

West—From Bank of Anjan river to village Andhyarbawadi and Kemdhana via Kunjilal Patel village Kalkuhi.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SANKET BHONDVE, Collector.

जिला पंचायत
परिशिष्ट-5 (ब)

कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. 2739-पंचा. प्रकोष्ठ-14.—मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में अंकित जिला को स्तंभ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तंभ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छिन्दवाड़ा	1	(जनपद पंचायत तामिया)		
			झिरपा	अनुसूचित जाति	3
			सावरवानी	अनुसूचित जनजाति	12
			माहुलझिर	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
			अन्होनी	महिला अ. जा.	2
			जमुनिया	महिला अ.ज.जा.	6
			बंधीबोदलकछार	महिला पिछड़ा वर्ग	0
			बम्होरीखुर्द	महिला सामान्य	5
			चावलपानी		
			मानेगाँव		
			खापासानी		
			सिगौड़ी		
			बम्हनी		
			कपूरनाला		
			खापाखुर्द		
			देलाखारी		
			जामुनडोगा		
			बांगई		
			कुरसीढाना		
			धगड़िया		
			मुत्तौर		
			इटावा		
			धूसावनी		
			मानकादेई		
			लहगडूआ		
			साजकुही		
			डोब		
			तामिया		
			दौरियाखेडा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			बिजौरी		
			पांडुपिपरिया		
			भोडियापानी		
			धटलिगा		
			सिधौली		
			जेतपुर		
			लिगा		
			बांकी		
	2		हरकपुरा		
			बोदलकछार		
			चाखला		
			कारेआमरातेड		
			हराकछार		
			लोटिया		
			तुमडी		
			छिन्दी		
			जोगीमुआर		
			मानकादेवरी		
			खुलसान		
			हिरीपठार		
			खिरैटीमाल		
			चौपना		
			नागरी		
			चौराडोगरी		
			बिजौरीपठार		
			(जनपद पंचायत हरई)		
			मढी		
			चिलक		
			गांगई		
			ओझलढाना		
			चुरीखुर्द		
			देवरी		
			चौपना		
			बिछुआ		
			बकटाखापा		
			ऑचलकुड		
			सालढाना		
			चुरिसाजवा		
			अतरीया		
			भैसखोह		
			कामठी		
			भोईपार		
			बेलपठार		
			दामखोह		
			झिरना		
			कोठिया		
			बाँका		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		अण्डोल			
		पलानी			
	3	सामरडोह			
		बुढैनाभोड			
		छिन्दा			
		परतापुर			
		धोधरी			
		तेदनी			
		तेन्दूखेड़ा			
		मेहंदा			
		रातामाटी			
		मोहरिया			
		तिन्सई			
		थारवा			
		मडई			
		मोआरसानी			
		नवलपुर			
		अमारी			
		भेडा			
		सुखापुरा			
		खमतारा			
		रैयाराव			
		अहरवाडा			
		सलैयाबुलाकी			
		बारगी			
		साठिया			
		सेजवाडा			
		भालपानी			
		खिरदा			
		धनौरा			
		मनकवाडी			
		सगोनिया			
		जिलेहरी			
		भुमका			
		सुरला			
		खापा			
		जमुनिया			
		बुढैना चट्टी			
		हडाई			
		राजदाना			
		बसुरियाखुर्द			
		छाताकला			
		कोहपानी			
		धरमी			
		करेर			
		गौरपानी			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(जनपद पंचायत, अमरवाड़ा)		
4			कहुआ साजवा ढोडाकुही सोनपुर नांदनवाडी लहगडुवा पुरतला पथरकटी रिछैडा मोहलीभारत हिरीं गाडरवाडा जुगावानी गढादरयाव करबडोल कोन्डरा सेजा बोरीमाल दुलारा बंधानी जुगावाडा भाजीपानी बारहहीरा लखनवाड़ा धसनवाड़ा पुतरां डुंगरियारैयत पौनार चंदनगांव छुआदेही छुईं सुखारीकला पिपरिया राजगुरू हिवरासानी		
5			चिखलीमुकासा कोपाखेडा घोघरी उमरिया बांकी चारनखापा कोल्हिया मंदानगढ़ लछुआ राहीवाडा बाबईं बडेगांव		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			पटनिया		
			बांकामुकासा		
			रजोला		
			नंदौरी		
			राफा		
			सिंगोडी		
			खकराचौरई		
			गुरैया		
			खामीहीरा		
			चिमौआ		
			तेन्दनी माल		
			कुदवारी		
			सकरवाडा		
			हिरीमुकासा		
			मानेगांव		
			बान्दरा		
			अकलमा		
			खिरैटी		
			खामी		
			सालीवाडा शारदा		
			बिनेकी		
			केकडा		
			लिंगपानी		
			मरकावाडा		
			सालीवाडा घाट		
			(जनपद पंचायत, परासिया)		
	6		बागबर्दिया		
			जमुनिया पठार		
			उरधन		
			तुमडी		
			झुरैमाल		
			तेन्दुखेडा		
			हरनभटा		
			मंडला		
			सावलाढाना		
			सिरगौरा		
			छिन्दा		
			लोहारीबांदरी		
			सेठिया		
			दीघावानी		
			रावनवाड़ा		
			हरई		
			दमुआ		
			धमनिया		
	7		पगारा		
			बुदलापठार		
			लोनापठार		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			कारीडोगरी		
			सेमरताल		
			कोहका		
			मायावाडी		
			सिरगोरीखुर्द		
			बरारिया		
			पैजनवाड़ा		
			बेलगांव		
			दरबई		
			ली, खावाडी		
			जाटाछापर		
			भंमोडी		
			चरईकला		
			भाजीपानी		
			अंबाडा		
			इकलहरा		
			देवरी		
			डुंगरिया		
	8		खिरसाडोह		
			खमराजेठू		
			गाजनडोह		
			शीलादेही		
			घघरीरैयतवाडी		
			बिजोरीगुमाई		
			उमरेठ		
			छाबडीकला		
			रिधोरा		
			पाठा		
			सोनापीपरी		
			ढाला		
			पिडरई		
			फुटेरा		
			पलटवाडा		
			खैरीचेतू		
			सहपानी		
			मोठार		
			मारई		
			सतनूर		
			बिजागोरा		
			मेंढकी		
			दबक		
			साजवा		
			सेतपरास		
	9		मोरडोंगरी खुर्द		
			इटावा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			खजरीअंतु		
			सिंदरईगुरैयाथर		
			कोठार		
			खारापिंडरई		
			जमुनिया जेटू		
			बीजकवाडा		
			दमुआरैयत		
			मुनगा		
			मोरडोंगरी कला		
			चांदामेटा कला		
			नीमकुही		
			चारगांव		
			मांडई माल		
			अपतरा		
			तालपिपरिया		
			तिगाई		
			कन्हरगांव		
			पटपडा		
			मनकादेहीकला		
			मनकादेही खुर्द		
			खंसवाडा		
			मूसादेही		
			परसोली		
			कुंडालीकला		
			मानियाखापा		
			(जनपद पंचायत, जुन्नारदेव)		
10			बिलावरकला		
			करनपिपरिया		
			खमराकला		
			गुददम		
			केवलारी		
			रिछेडा		
			जुन्नारदेव विशाला		
			चिखलमउ		
			धुट्टी		
			पालाचौरई		
			जमकुण्डा		
			नजरपुर		
			छिन्दीकामथ		
			तेलीवट		
			तूमडा		
			हनोतिया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		खैरवानी			
		चटुआ			
		बुधवारा			
		बुरीखुर्द			
		बुरीकला			
		नौलाखापा			
		कोहनिया रैयत			
		खामखेडा रैयत			
	11	कूकरपानी			
		आलामोद			
		सांगाखेडा			
		टेमरू			
		बिचबेहरी			
		झापिया			
		बातरी			
		गुरैखुरे मउ			
		तराई			
		गोप			
		बाकोडी			
		कांगरा			
		इकलामासानी			
		चिकटवरी			
		भरदी			
		भाकरा			
		माली			
		बिलावरखुर्द			
		पनारा			
		बानाबेहरा			
		टकाढाना			
		चउमउ			
		रामपुर			
		भरदागढ			
		उमराडी			
		छावडा			
		कौआझिरी			
		झौतकला			
	12	राखीकोल			
		धोडावाडीखुर्द			
		करमोहनीबंधी			
		पुरैनाखालसा			
		बिछुआखुर्द			
		कोल्हिया			
		दातलावादी			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			डुगरिया		
			खापास्वामी		
			पिन्डरई कला		
			डुगरिया भरदागढ		
			माण्डई		
			हिरदागढ		
			करहैया		
			बाम्हनवाडा		
			सुरनादेही कला		
			मालिनी		
			बोरदेही खुर्द		
			बदनूर		
			नवेगांव कला		
			मनकूधाटी		
			मडकाढाना		
			जम्वाकिराडी		
			भतोडियाखुर्द		
			कटकुही		
			आवरिया		
			खैरमण्डल		
13			चिखलार		
			बरेलीपार		
			खुमकाल		
			मोहगांव किसन		
			माचीधाट माल		
			डोडासेमर		
			पर्वतधोधरी		
			मोरछी		
			कोरपानी खुर्द		
			धानाउमरी		
			आंकिया		
			खिडकी कनैरी		
			ठाकरवाडी		
			बिन्दरई		
			सातग्वारी		
			बेलगांव माल		
			(जनपद पंचायत, मोहखेड़)		
			धगडिया		
			उमरडोह		
			बीजागोरा		
			भंवारी		
			महलारी बाकुल		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			बेलखेडा मुजावरमाल मछैरा गोविन्दवाडीमाल चुडाबोह मैनीखापा राजोला रैयत हीरावाडी डोडीया लावाधोधरी परासिया बैतुल (जनपद पंचायत, मोहखेड़)		
14			लिंगा बडगौना जोशी गोरेधाट लौनिया बीसापुरकला निशान दरियाव ग्वारा करेर जमुनियामाल तारा हिवरावासुदेव गोरखपुर सारग बिहरी झिरीया अंडवार तुर्कीखापा लहगडुआ चिखलीकलां जाम सरोरा इकलबिहरी बिंदरई खुनाझिर खुर्द भुताई नरसला		
15			तिकाडी पौनार कामठी चारगांवकरबल राजेगांव सतनूर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			मोहखेड		
			मउ		
			तनसरामाल		
			रंगारीतालाब		
			सिल्लेवानी		
			गढमउ		
			लोहागी		
			सारोठ		
			महलपुर		
			शंकर झिरी		
			अम्बामाली		
			पालाखेड		
			रजाडा		
			देवगढ		
			जूनापानी		
			प्रधानधोधरी		
			गुबरैल		
			बदनूर		
			टेमनीखुर्द		
			सांवरी		
			करलाकला		
			पटरानाई		
			पालामउ		
			(जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा)		
16			गांगीवाडा		
			मानेगांव		
			(जनपद पंचायत, मोहखेड)		
			खूनाझिरकला		
			शिकारपुर		
			अर्जुनवाडी		
			खैरवाडा		
			तिवड़ाकामथ		
			भाण्डखापा		
			पिंडरईखुर्द		
			नवलगांव		
			जाखावाडी		
			(जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा)		
			भैसादण्ड		
			रोहनाकला		
			थुनियाउदना		
			गुरैया		
			सांख		
			मदनपुर		
			कोटलवरी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उमरहर		
			चारगाँव		
			खापाकला		
			मालहनवाडा		
			उभेगाँव		
			गोंदरा		
	17		ककई		
			भूतेरा		
			रोहनाखुर्द		
			झिरलिगाँ		
			चारगाँव प्रहलाद		
			केवलारी		
			कचरिया		
			बम्हनी		
			कपरवाडी		
			मेघासिवनी		
			लकडाईजम्होडी		
			बनगाँव		
			भूलमोहगाँव		
			काराधाट		
			डॉंगवानीपिपरिया		
			थावरीटेका		
			नेर		
			जमुनिया		
			पिपरियालालू		
			राजाखोह		
			सिहोरा		
			चन्हियाखुर्द		
			खैरीभुताई		
			सारना		
			चन्हियाकला		
			वोहना		
	18		रामगढ़ी		
			पखडिया		
			धाटपरासिया		
			रंगीनखापा		
			लोनियामारू		
			उमरियाईसरा		
			खुटिया		
			पुलपुलडोह		
			पिण्डरईकला		
			सुसरई		
			धमनिया		
			शहपुरा		
			थावरीकला		
			कुहिया		
			भानादेई		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			बीजेपानी भाजीपानी (जनपद पंचायत, चौरई) नीलकंठीखुर्द परसगांव सर्रा नौलाझिर बांकानागनपुर पाल्हरी केरिया सिहोरामाल झिलमिली चीचगाँव बम्हनीटूरा निसानजानोजी नवेगाँव गौड (जनपद पंचायत, चौरई)		
19			हिवरखेडी धनोरा बारहबरयारी केवलारीसम्भा बाम्हनवाडा कलकोटी रामगढ़ आमाबोह कुण्डा गोपालपुर मडई जमुनिया पिपरियामानसिंग खिरखिरी हथनी थावरी लिखडी गुरैया लोहारा खटकर मुआरी बीझावाडा सलखनी माचीवाडा नवेगाँव मकरिया सिरेगाँव मडकाहांडी माचागोरा पालादौन		
20			राजलवाडी बरेलीपार		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		मोरखा			
		सीतापार			
		डूगरिया			
		सीदप			
		खैरीखुर्द			
		कपूरुधा			
		समसवाडा			
		धोरावाडी			
		सिमरियाकला			
		औरिया			
		फूटेरा			
		हलालखुर्द			
		हिर्री			
		साजपानी			
		सांख			
		देवरीमाल			
		सिरस			
		सिगौडी			
		आमाझिरी			
		पंचगाँव			
		बम्हनीलाला			
		परसोली			
		पॉजरा			
		लोनीकला			
		खूटपिपरिया			
		(जनपद पंचायत, बिछुआ)			
		पाथरी			
		गुमतरा			
		थोटामाल			
		(जनपद पंचायत, चौरई)			
21		बांसखेडा			
		रमपूरी			
		खैरीरानी			
		कोआखेडा			
		मोधर			
		टाप			
		पौनिया			
		पिपरियाखाती			
		सटोटी			
		सालई छिन्दी			
		दिलावर मोहगांव			
		गुमगांवदावझिर			
		बादगांव			
		तीतरी			
		बतरी			
		मेंघदोन			
		लालगांव			
		झिरिया			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			बाडीवाडा चिखलीखुर्द जमतारा (जनपद पंचायत, बिछुआ) लोहार बतरी जमुनियाकला खमरा किसनपुर पिपरियाकला ग्वारीमाल खमरियामाल (जनपद पंचायत, बिछुआ)		
	22		मोहपानीमाल कुण्डारैयतवाडी आमाकुही पानाथावडीमाल सामरबोह झामटा गौनी उल्हावाडी करेर खैरीमाल मोया पुलपुलडोह सुरैवानी सिलोटाकला सुरगी कढैया खमारपानी गढ़वानी अम्बाडी तुमडागढ़ी कपूरखेडा पनियारी बडोसा सहानवाडी लोहागी चकारा मुगनापार सोनपुर चन्द्रिकापुर धनेगाँव आमाझिरीकला जमुनियाखुर्द धाटकामठा दूधगाँव देवरी चिचगाँव		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			धोराड		
			कुण्डई		
			थुयेपानी		
			खदवेली		
			(जनपद पंचायत, सौंसर)		
	23		जोबनी		
			कोपरावाडीखुर्द		
			रामपेठ		
			डूकरझेला		
			खापा		
			आमला		
			खुटामा		
			पिपलाकन्हान		
			नन्देवानी		
			देवली		
			मराम		
			खाडसिवनी		
			मुगनापार		
			जाम		
			सावली		
			कढैया		
			कुण्डम		
			रिधौरा		
			धोधरीखापा		
			कोपरवाडी कला		
			छत्रापुर		
			पढराखेडी		
			रझाडीपिपला		
			बानाबकोडा		
			सांवगी		
			पन्ढरी		
			गांगतवाडा		
			ढोकडोह		
			मेहराखापा		
			रामाकोना		
			रोहना		
	24		देवी		
			पांगडी		
			धडेलामाल		
			बिछुआबग्गू		
			उटेकटा		
			निमनी		
			धोटी		
			बेरडी		
			मेंहदी		
			रजाडीबोरगाँव		
			अम्बाडी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			सवरनी		
			रंगारी		
			बैरागढ़		
			पारडसिगा		
			कबरपिपला		
			सातनूर		
			सावंगा		
			मालेगाँव		
			खैरीतायगाँव		
			बोरगाँव		
			सायखेडा		
			तीनखेडा		
			एलकापार		
			बाधोडा		
			धोतकी		
			हिवराखंडेरायवार		
			परतापुर		
			(जनपद पंचायत, पांडुणा)		
25			जामलापानी		
			पठारा		
			नरसला		
			पाठई		
			कौडिया		
			लोनादेई		
			चिमनखापा		
			काराघाटकामठी		
			चिखलीमुकासा		
			पलासपानी		
			धनोरा		
			छाबडी		
			कोंढाली		
			रायबासा		
			घोगरी		
			भाजीपानी		
			बुचनखापा		
			अम्बाडा		
			नांदनवाडी		
			बंधान		
			चांगोवा		
			राजडोंगरी		
			चाटवा		
			सिराठा		
			टेमनीकला		
			लेदागौदी		
			ढोलनखापा		
			सिल्लेवानी		
			भिमखेडी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		लेण्डोरी			
		कामढीकला			
		परसोडी			
		मागुरूली			
		मरकावाडा			
		पिपरपानी			
		मॉडवी			
		पेंडोनी			
		ईटावा			
	26	पैलेपार			
		भंदारगौरी			
		मारूड			
		तिगाँव			
		खेडीकला			
		चिचखेडा			
		जुनेवानी			
		गोरलीखापा			
		देवखापा			
		सावजपानी			
		भुआरी			
		धावडीखापा			
		भूली			
		बाडेगाँव			
		कलमगाँव			
		वनगाँव			
		लिगाऐलेतीर			
		उमरीकला			
		राजोराकला			
		गुजरखेडी			
		पारडी			
		मोरडोगरी			
		करवार			
		मालेगाँव			
		खैरीपैका			
		लांधा			
		टेमनी साहनी			
		सिवनी			
		राजना			
		धोधरीसाहनी			
		हिवरासेनाडवार			
		चिचौलीबड			
		बोधिया			
		आजनगाँव			

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला छिन्दवाड़ा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाया गया है ग्राम के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शाई गई है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	लोनियाकरबल	लोनियाकरबल	14989	12

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	लहगडुआ	लहगडुआ	2380	23
		खैरीभोपाल	505	23
		खापामिट्टेखॉ	659	23

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	पोआमा	पोआमा	1611	05
		उसरिया	523	05

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	सोनपुर	सोनपुर	1678	63

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	सारसवाड़ा	सारसवाड़ा	1282	16

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	बोरिया	बोरिया	1892	17

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	सोनाखार	सोनाखार	2479	21

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	ईमलीखेड़ा	ईमलीखेड़ा	2001	15

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	पखड़िया	इमलियाबोहता	830	18

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	अजनिया	अजनिया	774	22
		कबाड़िया	924	22

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	परतला	परतला	4388	08
		काराबोह	1529	08

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	सर्रा	सर्रा	1457	14
		मटकूली	172	14
		शुनियाभांड	1203	14

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	चंदनगांव	चंदनगांव	16896	13

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	सिवनीप्राणमोति	सिवनीप्राणमोति	3054	20

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	खापाभाट	खापाभाट	2646	10
		कुसमेली	904	10

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	कुकड़ाजगत	कुकड़ाजगत	5997	11

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	खजरी	खजरी	7338	9

सारणी

खण्ड का नाम	“ग्राम” का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	रोहनाखुर्द	झण्डा	623	24

प्रपत्र-3(ब)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला छिन्दवाड़ा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) “ग्राम पंचायत की सीमा” स्तंभ क्रमांक (5) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए “ग्राम” के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	रोहनाखुर्द	खापामिटठेखां	रोहनाखुर्द	547	24
				कुदवारी	377	24
				गंगई	441	24
				खापामिटठेखां	659	23

प्रपत्र-3(ब)

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	गुरैया	उसरिया	गुरैया	6137	04
				उसरिया	523	05

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा
परिशिष्ट-5 (ब)

कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित

अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(5)	
1	छिन्दवाड़ा	1	गांगीवाड़ा मानेगांव	अ.जा.	2
		2	गुरैया थुनियाउदना	अ.ज.जा.	5
		3	रोहनाकला भैंसादण्ड	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रोहनाखुर्द केवलारी कचरिया बम्हनी झिरलिंगा	महिला अ. जा.	1
		5	मेघासिवनी कपरवाडी चारगांव प्रहलाद	महिला अ.ज.जा.	3
		6	सारना चन्हियाखुर्द खैरीभुताई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रामगढ़ी रंगीनखापा पखडिया	महिला सामान्य	3
		8	भानादेई पुलपुलडोह पिंडरईकला सुसरई		
		9	घाटपरासिया उमरियाईसरा खुटिया		
		10	नेर जमुनिया काराघाट		
		11	सिहोरा डांगावानी पिपरिया भूलामोहगांव थांवरिटेका		
		12	ककई भुतेरा लोनियामारू बोहनाखैरी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		13	राजाखोह बनगांव लकडाईजम्होडी पिपरियालालू	
		14	शहपुरा कुहिया धमनिया थांवरीकला	
		15	कोटलबरी मदनपुर मालहनवाडा बीजेपानी	
		16	उमरहर खापाकला सांख भाजीपानी चारगांव	
		17	उभेगांव गोंदरा	

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5 (अ)

कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	(5)
गुरैया					
1	गुरैया	1	सुकू कराडे के म.नं. 1 से सरोज के म.नं. 37 घ तक	अ.जा.	5
2		2	हेमंत कुमार यादव के म.नं. 38क से गोपाल चौरे के म.नं. 78ध तक.	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	4 5
3		3	सालकराम अहरवार के म.नं. 79 से नारायण जावरकर के म.नं. 136 तक.	महिला अ. जा. महिला अ.ज.जा.	3 2
4		4	बतसिया चंद्रवंशी के म.नं. 137 से सुशीला साहू के म.नं. 188 तक.	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	गुरैया	5	पप्पू धुर्वे के म.नं. 189 से झीनी यादव के म.नं. 250 तक	
6		6	रूपलाल के म.नं. 251 से कौशल्या के म.नं. 301 तक	
7		7	सुकराम के म.नं. 302 से 343ख से ज्ञानचंद के म.नं. तक	
8		8	सुमरन के म.नं. 344 से पुत्री जैन के म.नं. 372 तक	
9		9	कमलेश चंदवार के म.नं. 373 से सुखराम डोलेकर के म.नं. 407ख तक.	
10		10	प्रमोद के म.नं. 408 से 448क तक पिरमु के म.नं. तक	
11		11	कन्हैया डोलेकर के म.नं. 449क से सरावन हिवसे के म.नं. 484 तक.	
12		12	रामराव राउत के म.नं. 485 से देवकरण के म.नं. 522 तक	
13		13	सरगू नाथ हिवसे के म.नं. 523क के चन्द्रभागा के म.नं. 574क तक.	
14		14	रामचंद साहू के म.नं. 575 से राजकुमार यादव के म.नं. 605क तक.	
15		15	पंढरीनाथ के म.नं. 606 से रामलाल के म.नं. 642 तक	
16		16	रामविलास के म.नं. 644 से रमेश उइके के म.नं. 682घ तक	
17		17	असाडू लोहार के म.नं. 683 से 758क मिश्रीलाल के घर तक	
18		18	म.नं.758ख भगवान से 810 छोटेलाल के घर तक	
उसरिया				
19		19	नत्थूलाल उइके के म.नं. 1 से बलीराम म.नं. 39 तक	
20		20	दशमीबाई के म.नं. 40 से कुराबाई के म.नं. 127 तक	

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
रोहनाखुर्द					
1	रोहनाखुर्द	1	तुलसीराम परतैती के म.नं. 1 से अशोक भलावी के म.नं. 14/1 तक.	अ.जा. अ.ज.जा.	1 7
2		2	कारी यदुवंशी के म.नं. 15/1 से अन्सार अली के म.नं. 38 तक.	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 1
3		3	जानी चंद्रवंशी के म.नं. 39 से बल देव के म.नं. 49/4 तक	महिला अ.ज.जा.	4
4		4	दुर्गा विश्वकर्मा के म.नं. 50 से वती धुर्वे के म.नं. 77 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			कुदवारी	
5	रोहनाखुर्द	5	भोजेलाल यदुवंशी के म.नं. 1 से पितर यादव के म.नं. 19 तक.	
6		6	पूनाराम रौतिया के म.नं. 20 से सोमवती विश्वकर्मा के म.नं. 90 तक.	
7		7	नारायण श्दुवंशी के म.नं. 42 से सकरलाल तेकाम के म.नं. 52 तक.	
			गंगई	
8		8	गंगाराम भारती के म.नं. 1/1 से हीरामन परसादी के म.नं. 18/2 तक.	
9		9	छततेलाल चंद्रपुरी के म.नं. 20 से रसनिया के म.नं. 32 तक	
10		10	झिकया के म.नं. 33 से चतरी चंद्रपुरी के म.नं. 51 तक	
11		11	भोजे भारती के म.नं. 54 से मंगलिया भारती के म.नं. 69 तक	
			खापामिटटेखां	
12		12	फगनी ठाकुर के म.नं. 1 से श्रीचंद पटेल के म.नं. 14 तक.	
13		13	केवल कुमार संध्या के म.नं. 15 से गायत्री पहाडे के म.नं. 40 तक.	
14		14	पूरन साहू के म.नं. 42 से नन्ही बाई के म.नं. 77 तक	
15		15	नमदीं बाई सनकर के म.नं. 78 से मेवालाल के म.नं. 94 तक.	

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(5)	
			पखड़िया		
1	पखड़िया	1	हीरालाल के म.नं. 1 से सुखलाल के म.नं. 14 तक	अ.जा.	1
2		2	रामलाल धुर्वे के म.नं. 15क से गंगाराम गौली के म.नं. 30 तक.	अ.ज.जा.	7
3		3	नंदराम डेहरिया के म.नं. 31 से सिद्धुकुमार के म.नं. 47 ग तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	पखड़िया	4	परसराम अहीर के म.नं. 48 से गंगाधर लोमटे के म.नं. 73 तक.	महिला अजा 1
मारई				
5		5	प्रताप सिंह उइके म.नं. 1 से मनोहर के म.नं. 16ख तक	महिला अजजा 4
6		6	मंगलू के म.नं. 17 से सूरु इनवाती के म.नं. 30 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 0
7		7	पतिराम धुर्वे के म.नं. 13 से संउआ धुर्वे के म.नं. 48ख तक.	महिला सामान्य 3
		8	फूलवती के म.नं. 49 से बिरधर नेसरवार के म.नं. 71 तक	
9		9	सोमती के म.नं. 72 से हीरालाल के म.नं. 87 तक	
10		10	सहतर के म.नं. 88ख से मनीराम के म.नं. 102 तक	
सहजपुरी				
11		11	विजनवती के म.नं. 1 से रामकुमार के म.नं. 56 तक	
12		12	बागवती विश्वकर्मा के म.नं. 20क से सोदी के म.नं. 33 तक.	
13		13	भगली के म.नं. 34क से सरताप के म.नं. 51 तक	
14		14	भगवानसिंग के म.नं. 52क से टीकाराम के म.नं. 63 तक	
15		15	श्रीमन के म.नं. 64 से हरीचंद के म.नं. 79/3 तक.	

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), छिन्दवाड़ा

सूचना

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. 2746-पंचा.प्रकोष्ठ-14.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2014/22/पं.-2/दिनांक 13 अक्टूबर 2014 द्वारा आरक्षण की संशोधित तिथि के संबंध में प्राप्त निर्देशों एवं म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13, 17, 23, 25, 30, 129(ख) एवं 129(ड) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3, 4, 6, 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ यह प्रकाशित करता हूँ कि :-

- (1) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक, 4 (दो), (6) धारा 129(ख) एवं 129(ड) मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के प्रावधान अनुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही.
- (2) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (2), (3), (4) धारा 129(ख) एवं 129(ड) मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में प्रावधान अनुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच के पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही.
- (3) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 की उपधारा (3), (4), (5) धारा 129(ड) तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के प्रावधान अनुसार जिले की समस्त जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में तथा धारा 25 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 के अनुसार जिले की जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही.

- (4) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (3), (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के अंतर्गत जिले की जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही.

नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में दर्शित दिनांक एवं समय में अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यालय में, अनुसूची के स्तम्भ (4) में वर्णित जनपद पंचायत/जिला पंचायत के लिए अनुसूची के स्तम्भ (5) में दर्शित आरक्षण की कार्यवाही विहित रीति में उन व्यक्तियों के सामने की जावेगी, जो कि उक्त कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में उपस्थित होंगे.

अनुसूची

क्र. (1)	आरक्षण की कार्यवाही दिनांक एवं समय (2)	आरक्षण का स्थान (3)	जनपद / जिला पंचायत का नाम (4)	आरक्षण कार्यवाही का विवरण (5)
1	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	अतिरिक्त कलेक्टर, कोर्ट रूम, छिन्दवाड़ा.	तामिया	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
2	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	परासिया	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
3	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	पांडुर्णा	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
4	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिला पंचायत, सभाकक्ष छिन्दवाड़ा.	सौंसर	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
5	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा का कक्ष.	मोहखेड	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
6	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय छिन्दवाड़ा का कक्ष.	अमरवाड़ा	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
7	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिला पंचायत (ग्रामीण विकास शाखा) कार्यालय छिन्दवाड़ा का हॉल.	हरई	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
8	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा सभाकक्ष.	चौरई	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	बिछुआ	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
10	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	तहसीलदार छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	छिन्दवाड़ा	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
11	27-10-2014 (सोमवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	कलेक्टोरेट सभाकक्ष छिन्दवाड़ा.	जुन्नारदेव	ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंचों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
12	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	अतिरिक्त कलेक्टर कोर्ट रूम छिन्दवाड़ा.	तामिया	जनपद पंचायत तामिया के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
13	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	परासिया	जनपद पंचायत परासिया के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
14	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	पांडुर्णा	जनपद पंचायत पांडुर्णा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
15	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय छिन्दवाड़ा का कक्ष.	अमरवाड़ा	जनपद पंचायत अमरवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
16	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा सभाकक्ष.	सौंसर	जनपद पंचायत सौंसर के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
17	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा कक्ष.	मोहखेड	जनपद पंचायत मोहखेड के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
18	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जिला पंचायत (ग्रामीण विकास शाखा) कार्यालय छिन्दवाड़ा का हाल.	हरई	जनपद पंचायत हरई के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
19	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा सभाकक्ष	चौरई	जनपद पंचायत चौरई के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	बिछुआ	जनपद पंचायत, बिछुआ के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
21	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	तहसीलदार छिन्दवाड़ा का कोर्ट रूम.	छिन्दवाड़ा	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
22	28-10-2014 (मंगलवार) समय प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	कलेक्टोरेट सभाकक्ष छिन्दवाड़ा.	जुन्नारदेव	जनपद पंचायत, जुन्नारदेव के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.
23	28-10-2014 (मंगलवार) समय दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे तक.	कलेक्टोरेट सभाकक्ष छिन्दवाड़ा.	जिले की 11 जनपद पंचायत.	जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण.
24	28-10-2014 (मंगलवार) समय दोपहर 03.30 बजे से कार्य समाप्ति तक.	कलेक्टोरेट सभाकक्ष छिन्दवाड़ा.	जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा.	जिले की जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन-सामान्य निर्वाचन 2014-15

प्रपत्र-I छिन्दवाड़ा जिले की ग्राम पंचायतों के वार्ड विभाजन एवं प्रवर्गवार आरक्षण दर्शाने वाला पत्रक

जिला छिन्दवाड़ा

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वार्डों की कुल संख्या	प्रवर्गवार वार्डों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या				रिमार्क	
				अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	कुल	अजा	अजजा	अपिव		अनारक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	छिन्दवाड़ा	58	922	113	274	153	382	474	67	150	86	171	-
2	मोहखेड़	79	1276	117	429	211	519	652	75	232	123	222	-
3	परासिया	91	1461	186	659	156	460	748	85	348	91	224	-
4	जुन्नारदेव	95	1438	173	998	43	224	738	87	515	23	113	-
5	तामिया	53	828	40	656	28	104	423	17	339	14	53	-
6	सौंसर	59	908	114	270	137	387	464	71	152	79	162	-
7	पांढुर्णा	72	1118	111	595	117	295	570	66	305	60	139	-
8	बिछुआ	50	694	68	454	53	119	361	45	237	35	44	-
9	अमरवाड़ा	71	1140	133	495	150	362	586	89	268	90	139	-
10	हरई	67	970	64	811	11	84	512	46	426	7	33	-
11	चौरई	89	1387	127	290	313	657	713	92	166	178	277	-
योग . .		784	12142	1246	5931	1372	3593	6241	740	3138	786	1577	-

त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन-सामान्य निर्वाचन 2014-15

प्रपत्र-III छिन्दवाड़ा जिले की जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं प्रवर्गवार आरक्षण दर्शाने वाला पत्रक

जिला छिन्दवाड़ा

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	जनपद पंचायत में प्रवर्गवार निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या				रिमांक	
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	कुल	अजा	अजजा	अपिव		अनारक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	छिन्दवाड़ा	17	2	5	4	6	9	1	3	2	3	
2	मोहखेड़	25	2	7	6	10	13	1	4	3	5	
3	परासिया	24	3	9	6	6	12	2	5	3	2	
4	जुन्नारदेव	23	3	14	0	6	12	2	7	0	3	
5	तामिया	15	1	11	0	3	8	1	6	0	1	
6	सौंसर	20	3	4	5	8	10	2	2	3	3	
7	पांडुर्णा	25	2	10	6	7	13	1	5	3	4	
8	बिछुआ	12	1	7	1	3	6	1	4	0	1	
9	अमरवाड़ा	18	2	7	5	4	9	1	4	3	1	
10	हरई	17	1	14	0	2	9	1	7	0	1	
11	चौरई	24	2	5	6	11	12	1	3	3	5	
योग . .		220	22	93	39	66	113	14	50	20	29	

त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन-सामान्य निर्वाचन 2014-15

प्रपत्र-V जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या व प्रवर्गवार आरक्षण दर्शाने वाला पत्रक

जिला छिन्दवाड़ा

क्र.	जिला का नाम	जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या				रिमांक	
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	कुल	अजा	अजजा	अपिव		अनारक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	छिन्दवाड़ा	26	3	12	0	11	13	2	6	0	5	—
योग . .		26	3	12	0	11	13	2	6	0	5	—

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर.